

CLASS-4

SUBJECT- 2ND LANGUAGE HINDI

CHAPTER- 10

डर किस बात का

WORKSHEET

सार:-

● बच्चों ईश्वर ने हर जीव- जंतु को अलग-अलग तरह के अंग दिए हैं जो अनेक तरह से उनकी रक्षा करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक बकरी के शरीर के विभिन्न अंगों ने कैसे उसकी रक्षा की यह इस कहानी में हमें जानने के लिए मिलेगा।

● एक बकरी थी। वह एक दिन अकेले ही जंगल में घास पत्ती खाने निकल गई। उसे वहाँ एक चरवाहा मिला। उसने बकरी से पूछा कि उसे अकेले जंगल में डर नहीं लगता। बकरी ने कहा कि डर? डर किस बात का? मेरे चार भाई हैं, जो कि मेरे चार पैर हैं, जो हर परेशानी से मुझे दूर ले जाते हैं। उसके साथ ही मेरे दो भाई ऐसे हैं, जो गदा लेकर मेरी रक्षा करते हैं वह मेरे दो सींग हैं। मेरे दो भाई ऐसे हैं जो मेरे लिए दूर की खबर लाते हैं वह मेरे दो कान हैं।

● चरवाहा ने कहा यदि कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि तुम्हारे यह भाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगी? तो बकरी ने कहा कि मेरी एक सहेली है, जिसका नाम बुद्धि है। वह हर परेशानी से मुझे बचाती है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। यह सुनकर वह वहाँ से चला गया चला गया।

● एक दिन बकरी जंगल में अकेली थी। तभी वहाँ एक शेर आया। बकरी को देख कर उसके मुँह में पानी आ गया। उसने बकरी पर झपटने की कोशिश की परंतु बकरी ने उसे रोक दिया और कहा कि मुझे खा लेना परंतु इतनी जल्दी क्या है। शेर बकरी की निडरता देखकर हैरान रह गया। क्योंकि इससे पहले इतनी निडर बकरी से उसका सामना कभी नहीं हुआ था।

● बकरी ने शेर से कहा कि मैं यहाँ अकेली ही आई हूँ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरा स्वामी मुझे मारना चाहता है। अच्छा है आप मुझे यहाँ मिल गए। अपने स्वामी के हाथों मरने से अच्छा है कि आप मुझे खा लें। परंतु मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरे शरीर में सिर्फ हड्डियाँ हैं मांस तो है ही नहीं तो आप मुझे कैसे खाएँगे। इसलिए मैं आपके साथ यहाँ दस दिन रहूँगी और खा पीकर जब मोटी हो जाऊँगी तो आप मुझे खा लेना। शेर बकरी की बात सुनकर मान गया।

● शेर रोज बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल ले जाता और बकरी को वहाँ घास पत्ती खिलाता। घास पत्ती खाकर बकरी मोटी हो गई थी।

● एक दिन जंगल में शेर और बकरी घूम रहे थे कि अचानक वहाँ दूसरा शेर आ गया। बकरी को देख कर उसके मुँह में पानी आ गया। उसने बकरी पर झपटना चाहा परंतु पहले शेर ने उस पर झपट्टा मारा। बकरी यही चाहती थी कि दोनों शेर आपस में लड़ें। दोनों शेर में आपस में झगड़ा शुरू हो गया और इस प्रकार आपस में लड़ते- लड़के दोनों शेर घायल हो गए और बकरी वहाँ से चली गई। इस प्रकार बुद्धि नामक सहेली ने बकरी की जान बचाई।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-

- (a) चकित-
- (b) निडर-
- (c) विपत्ति-
- (d) खबर-
- (e) मौका-
- (f) गदा-

Q2. एक शब्द में उत्तर दें:-

- (a) इस कहानी में बकरी के दो भाई कौन हैं जो हमेशा गदा लेकर उसकी रक्षा करता ?
- (b) इस कहानी में बकरी की सहेली किसे कहा गया है?
- (c) एक दिन जंगल में बकरी को कौन मिला?
- (d) शेर किसकी बात सुनकर राजी हो गया?
- (e) इस कहानी में किसकी निडरता के बारे में बताया गया है?
- (f) डर किस बात का कहानी में बकरी के चार भाई कौन है?

Q3. सोचें और बोलें:-

- (a) एक दिन बकरी को कौन मिला?
- (b) दूर की खबर लाने वाले बकरी के भाई कौन हैं?
- (c) बकरी को देखकर किस के मुंह में पानी आ गया?

Q4. सही मिलान करें:-

A

B

चार भाई बकरी
रक्षा करने वाले भाई शेर
दूर की खबर लाने वाले भाई पैर
निडर बुद्धि
सहेली कान
जंगल का राजा सींग

EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON

PAGE NO.57

Q3. लघु उत्तर लिखें:-

PAGE NO.58

भाषा- मंथन:-

Q3. दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं:-